



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1934 (श०)
(सं० पटना 239) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

12 मार्च 2013

सं० नि०प्रा०/नि० 1-27/2012-304—प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 277 दिनांक 06.03.2013 द्वारा बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना के अध्यक्ष सहित संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित एवं संसूचित किया गया है,

चूँकि, उक्त फेडरेशन की उपविधियाँ के नियम-34 के अनुसार मतदाताओं द्वारा पहले संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराया जायेगा एवं तत्पश्चात् उक्त निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में पुनः फेडरेशन के मतदाताओं द्वारा किया जायेगा। अतः उक्त आलोक में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना संख्या 277 दिनांक 06.03.2013 द्वारा अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम केवल संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में प्रभावी होगा। इस सीमा तक उक्त अधिसूचना को कृपया संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथासंशोधित), 2008 की धारा-14 का तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना के

अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान हेतु दिनांक 27.04.2013 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा फेडरेशन के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ उपविधियाँ/ प्राधिकार के निदेश के अधीन फेडरेशन के अध्यक्ष को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 90 दिनांक 17.01.2013 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.12.2012 निर्धारित की गई है।

निर्वाचन पदाधिकारी अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में सूचना दिनांक 20.03.2013 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, बुद्धमार्ग, पटना के
अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

| | | |
|-------|--|---|
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन | 20.03.2013 (बुधवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 17.04.2013 (बुधवार) 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 17.04.2013 (बुधवार) 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय | 17.04.2013 (बुधवार) 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 27.04.2013 (शनिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 27.04.2013 (मतदान समाप्ति के पश्चात्) |

परिशिष्ट-2

बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए)

..... लिमिटेड, निबंधन संख्या, पता
.....के अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांकको किया जाना है।

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या1..... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
|---------|---|
| 1. | 2. |
| अध्यक्ष | 01 (अनारक्षित) |

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर

(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर ... बजे पूर्वाह्न से ... बजे

(स्थान का नाम)

अपराह्न तक की जायेगी।

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व तकपर दाखिल की जा सकती है।

(स्थान का नाम)

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पूरा पता) में अवस्थित होगा।

(viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 239-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>